

- 3) AiiA^a AzÉ₂ A₂ FvA₂ PpL₂ P₂ P₂ vAUM₂ C^a E₂ P₂ M₂ E₂ EgA^a A₂ C₂ @è
- 4) P₂ E₂ A₂ U₂ M₂ A₂ A₂ P₂ A₂ t₂ P₂ U₂ E₂ F₂ M₂ P₂ A₂ a₂ U₂ M₂ A₂ i₂ A₂ C^a E₂ P₂ M₂ E₂ EgA^a A₂ C₂ @è
- 5) P₂ E₂ A₂ U₂ M₂ A₂ C⁻ É₂ A₂ r₂ ° A₂ q₂ M₂ P₂ A₂ v₂ U₂ Q₂ z₂ A₂ P₂ A₂ ¼₂ A₂ J⁻ É₂ ° A₂ ¼₂ A₂, ° A₂ F₂ m₂ É₂ Q₂ A₂ «₂ A₂, Q₂ I₂ U₂ M₂ A₂ E₂ A₂ B₂ w₂ A₂ z₂ A₂ f₂ A₂ «₂ A₂ a₂ z₂ j₂ A₂ z₂ A₂ D^o A₂ g₂ P₂ A₂ M₂ A₂ i₂ A₂ A₂ ° É₂ A₂ N₂ R₂ z₂ A₂ ð₂ ° A₂ A₂ q₂ A₂ A₂ P₂ A₂ v₂ @è
- 6) » v₂ P₂ ° è₂ A₂ Q₂ P₂ r₂ ° A₂ ±₂ E₂ A₂ z₂ A₂ P₂ è₂ ° A₂ t₂ U₂ M₂ A₂ a₂ z₂ b₂ A₂ e₂ F₂ E₂ v₂ U₂ E₂ ° A₂ F₂ E₂ m₂ ð₂ ° A₂ v₂ A₂ U₂ ° A₂ A₂ A₂ P₂ E₂ A₂ B₂ F₂ b₂ P₂ A₂ i₂ A₂ S₂ ° A₂ z₂ A₂.
- 7) F₂ P₂ E₂ A₂ ½₂ A₂ P₂ A₂ t₂ P₂ E₂ F₂ b₂ z₂ v₂ U₂ A₂ A₂ A₂ t₂ ° A₂ U₂ z₂ A₂ ° A₂ » ¼₂ A₂ i₂ A₂ j₂ U₂ E₂ E₂ E₂ M₂ E₂ B₂ ° É₂ A₂ P₂ j₂ D₂ z₂ A₂ A₂ i₂ A₂ v₂ A₂ z₂ A₂ P₂ E₂ q₂ A₂ v₂ z₂ E₂
- 8) P₂ E₂ A₂ ½₂ A₂ P₂ A₂ t₂ P₂ A₂ i₂ A₂ E₂ A₂ B₂ P₂ i₂ A₂ i₂ A₂ e₂ F₂ E₂ v₂ U₂ E₂ P₂ U₂ M₂ E₂ r₂ ° A₂ A₂ q₂ A₂ S₂ ° A₂ z₂ A₂.
- 9) ° A₂ B₂ ° A₂ U₂ E₂ v₂ A₂ S₂ ° A₂ ° A₂ P₂ A₂ v₂ z₂ A₂ v₂ P₂ r₂ ° A₂ S₂ A₂ q₂ P₂ A₂ ¼₂ A₂ ° A₂ E₂ r₂ ° É₂ A₂ N₂ - A₂ ° A₂ F₂ b₂ P₂ A₂ i₂ A₂ S₂ ° A₂ z₂ A₂.
- 10) ವಿಶೇಷವಾದ ಕಾಳಜಿವಹಿಸಿ ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಅವಶ್ಯಕತೆ E₂ @è ° A₂ U₂ M₂ E₂ A₂ t₂ P₂ E₂ A₂ F₂ P₂ ° A₂ M₂ M₂ E₂ ° A₂ U₂ A₂ ° A₂ P₂ è₂ P₂ E₂ A₂ ½₂ U₂ E₂ S₂ g₂ z₂ A₂ F₂ A₂ v₂ E₂ A₂ M₂ A₂ z₂ A₂ v₂ z₂ E₂
- 11) » v₂ P₂ ° F₂ b₂ z₂ v₂ A₂ i₂ A₂ ° è₂ P₂ E₂ A₂ ½₂ A₂ P₂ A₂ t₂ P₂ E₂ ° A₂ A₂ q₂ A₂ a₂ z₂ j₂ A₂ z₂ A₂ E₂ A₂ z₂ A₂ U₂ A₂ A₂ t₂ ° A₂ U₂ z₂ A₂ P₂ è₂ G₂ z₂ E₂ A₂ U₂ P₂ E₂ A₂ B₂ ° A₂ U₂ P₂ U₂ A₂ A₂ t₂ d₂ E₂ b₂ A₂ G₂ z₂ E₂ A₂ U₂ P₂ A₂ v₂ A₂ t₂ U₂ M₂ U₂ E₂ ° A₂ P₂ ° è₂ ° A₂ E₂ A₂ U₂ A₂ ° A₂ z₂ A₂ v₂ A₂ U₂ S₂ ° A₂ z₂ A₂.

C₂ E₂ A₂ E₂ P₂ M₂ E₂ @₂ U₂ M₂ A₂ :

- 1) F₂ F₂ b₂ z₂ v₂ A₂ i₂ A₂ ° è₂ P₂ E₂ A₂ ½₂ U₂ M₂ A₂ ° A₂ F₂ E₂ m₂ ð₂ A₂ i₂ A₂ E₂ A₂ B₂ J⁻ É₂ z₂ b₂ P₂ è₂ ಇಡುವುದರಿಂದ ಮೊಟ್ಟೆಯ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ತುಂಬ ಕಷ್ಟಕರವಾಗುತ್ತದೆ.
- 2) F₂ F₂ b₂ z₂ v₂ A₂ i₂ A₂ ° è₂ P₂ E₂ A₂ ½₂ U₂ M₂ A₂ E₂ A₂ B₂ ° A₂ Q₂ z₂ A₂ U₂ A₂ C^a ° A₂ ° É₂ A₂ N₂ q₂ A₂ q₂ A₂ a₂ z₂ j₂ A₂ z₂ A₂ C^a ° A₂ U₂ M₂ A₂ z₂ A₂ ° A₂ z₂ A₂ P₂ è₂ ±₂ O₂ A₂ i₂ A₂ ° É₂ A₂ N₂ ° A₂ A₂ i₂ A₂ ° A₂ U₂ A₂ a₂ z₂ j₂ A₂ z₂ A₂ C^a ° A₂ U₂ M₂ U₂ E₂ D^o A₂ g₂ z₂ A₂ C^a E₂ P₂ M₂ ° É₂ A₂ N₂ g₂ m₂ v₂ z₂ E₂
- 3) F₂ F₂ b₂ z₂ v₂ A₂ i₂ A₂ ° è₂ P₂ E₂ A₂ ½₂ U₂ M₂ U₂ E₂ ° A₂ A₂ P₂ A₂ A₂ P₂ A₂ g₂ E₂ A₂ U₂ A₂ S₂ g₂ A₂ ° A₂ z₂ A₂ ° É₂ A₂ v₂ z₂ A₂ v₂ g₂ E₂ A₂ U₂ b₂ » v₂ A₂ P₂ E₂ A₂ ½₂ U₂ M₂ A₂ z₂ A₂ ° A₂ F₂ ° A₂ P₂ r₂ ° A₂ U₂ A₂ ° A₂ C₂ @è F₂ j₂ A₂ w₂ ° A₂ A₂ P₂ A₂ A₂ P₂ A₂ g₂ E₂ A₂ U₂ S₂ A₂ z₂ A₂ P₂ è₂ ° A₂ «₂ É₂ A₂ F₂ E₂ A₂ t₂ ° É₂ A₂ U₂ v₂ z₂ E₂

d₂ U₂ M₂ P₂ A₂ q₂ A₂ ° A₂ U₂ A₂ D₂ U₂ S₂ ° A₂ z₂ A₂ z₂ A₂ ° A₂ ° A₂ i₂ A₂ E₂ A₂ B₂ v₂ A₂ ° A₂ P₂ A₂ E₂ z₂ A₂ ° A₂ A₂ i₂ A₂ P₂ A₂ U₂ v₂ z₂ E₂

- * 5 E₂ A₂ C₂ E₂ P₂ E₂ P₂ A₂ t₂ U₂ ° A₂ v₂ A₂ U₂ ° A₂ M₂ E₂ V₂ E₂ P₂ è₂ ° A₂ ° A₂ C₂ q₂ A₂ ° A₂ ° A₂ M₂ E₂ P₂ A₂ g₂ A₂ t₂ P₂ A₂ v₂ i₂ C₂ x₂ P₂ ° A₂ P₂ E₂ P₂ b₂ g₂ E₂ A₂ U₂ z₂ A₂ «₂ g₂ A₂ z₂ A₂ @₂ 1 P₂ E₂ ° A₂ P₂ A₂ U₂ v₂ z₂ E₂ 15 E₂ A₂ C₂ E₂ P₂ E₂ I₂ B₂ D₂ @₂ 1 P₂ E₂ 35 j₂ A₂ z₂ A₂ 65 E₂ A₂ C₂ E₂ z₂ A₂ C₂ A₂ v₂ z₂ P₂ è₂ ° A₂ F₂ E₂ A₂ M₂ A₂ @₂ 1 P₂ A₂ i₂ A₂ E₂ A₂ B₂ ° A₂ P₂ A₂ U₂ v₂ z₂ E₂ 4 j₂ A₂ z₂ A₂ 5 ° A₂ A₂ g₂ U₂ M₂ P₂ è₂ ° A₂ ° A₂ b₂ j₂ i₂ M₂ A₂ ° P₂ i₂ ° A₂ A₂ P₂ A₂ ° A₂ q₂ A₂ ° A₂ P₂ A₂.



- * ಗ್ರಾಮೀಣ ಕೋಳಿಗಳಿಗೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಔಷಧೋಪಚಾರ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, D₂ z₂ b₂ g₂ E₂ ° A₂ i₂ E₂ A₂ S₂ A₂ i₂ A₂ ° è₂ É₂ A₂ N₂ P₂ E₂ A₂ ½₂ ° A₂ E₂ ° A₂ g₂ é₂ v₂ z₂ A₂ A₂ i₂ A₂ ° A₂ z₂ A₂ C₂ F₂ ° A₂ A₂ i₂ A₂ J₂ z₂ A₂ j₂ ° A₂ 1 z₂ j₂ g₂ A₂ ° A₂ P₂ A₂. D^o A₂ g₂ A₂ i₂ A₂ ° A₂ z₂ A₂ E₂ z₂ j₂ M₂ E₂, 2 ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಜಂತು ಔಷಧಿ ಹಾಕಿಸಬೇಕು. ಈ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ತ ಜಂತು ನಿವಾರಕ ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ಮಿಶ್ರಮಾಡಿ P₂ A₂ r₂ ° A₂ ° A₂ P₂ A₂.

- * 1 C₂ E₂ z₂ A₂ ° A₂ j₂ U₂ E₂ ° A₂ A₂ g₂ P₂ i₂ z₂ A₂ z₂ A₂ N₂ ° A₂ z₂ A₂ v₂ P₂ E₂ r₂ ° A₂ ° A₂ P₂ A₂. 5 E₂ A₂ C₂ E₂ P₂ E₂ P₂ A₂ t₂ U₂ ° A₂ ° A₂ g₂ A₂ t₂ P₂ A₂ v₂ i₂ @₂ 1 P₂ A₂ i₂ A₂ E₂ A₂ B₂ P₂ E₂ r₂ ° A₂ ° A₂ P₂ A₂. 4 E₂ A₂ ° A₂ g₂ z₂ P₂ è₂ P₂ A₂ r₂ A₂ i₂ A₂ ° A₂ ° A₂ ° A₂ j₂ E₂ P₂ è₂ ° A₂ v₂ A₂ U₂ z₂ A₂ ° A₂ z₂ A₂ v₂ M₂ E₂ P₂ A₂ 750 U₂ A₂. D₂ z₂ A₂ U₂ A₂ z₂ A₂ z₂ A₂ P₂ A₂ C₂ E₂ A₂ ° A₂ M₂ E₂ P₂ A₂ P₂ E₂ q₂ A₂ ° A₂ P₂ A₂.

- * ° A₂ 1 U₂ A₂ i₂ A₂ ° è₂ w₂ A₂ U₂ M₂ U₂ E₂ ° A₂ ° A₂ ° A₂ v₂ A₂ U₂ v₂ A₂ F₂ A₂ ° P₂ A₂ ° A₂ A₂ E₂ z₂ P₂ è₂ ° A₂ g₂ P₂ E₂ P₂ A₂ ° A₂ E₂ P₂ z₂ A₂ ° A₂ ° A₂ ° A₂ t₂ P₂ E₂ A₂ B₂ ° A₂ j₂ 1 «₂ A₂ ±₂ E₂ A₂ q₂ A₂ ° A₂ P₂ A₂. E₂ z₂ j₂ A₂ z₂ A₂ C^a E₂ A₂ F₂ E₂ A₂ ° A₂ i₂ A₂ ° A₂ ° A₂ E₂ P₂ r₂ ° A₂ B₂ A₂ i₂ A₂ U₂ A₂ ° A₂ z₂ A₂ P₂ z₂ A₂, E₂ P₂ ° A₂ ° A₂ ° A₂

DgA: zA°AvA: PAVPAPA^a PÉqA«PÉ 1 ÇEzA^a Aj UMEAB
 1 ZbzgA Cr eAUPE 10gA ¥PÉ ÁAtzP è ©qA AUAvzÉ CAZbzÉ
 100 ZÁ CrAiA° è Á«gA^a Aj UMEAB ©qS° ÁzA. F °AvzP è
 950 ಈ ಉಷ್ಣತೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸಬೇಕು. ಸರಳವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ
^aAj AiÉAZPÉ 1^a Ami ¥PÉ ÁAtzP è «zÁvi S⁻ia
 Gj S° ÁzA. EzPzÉ EÇP®^a ÁrPAiA S¼PAiAÉ PÁ
 ರೂಡಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಉಷ್ಣತೆ ಹೆಚ್ಚಾದರೆ ಮರಿಗಳು ದೂರ ಸರಿಯುತ್ತವೆ.
 ಉಷ್ಣತೆ ಕಡಿಮೆಯಾದರೆ ಮಡಿಕೆಯ ಸನಿಹ ರಾಶಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು
 ಸರಿಯಾಗಿ ಗಮನಿಸಿ ಉಷ್ಣತೆ ಸರಿ ಹೊಂದಿಸಬೇಕು. ಈ ರೀತಿ 2-3
 ವಾರಗಳ ಕಾಲ ಉಷ್ಣತೆ ಒದಗಿಸಬೇಕು. ವಾರಕ್ಕೊಮ್ಮೆ 50 ಈ
 ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಉಷ್ಣತೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಬರಬೇಕು.
 SÆAUiÉP è EgA^a Aj UÉP¼UÉ °AvzA °ÉI Á° AvÁU ¥PÉ ¥bzÉAB
 °Á, Á AUAvzÉ PÁrAiA^a Aj UÉ J⁻PKEØ Émi, fÁ^a Á MA[©]
 PAA¥Pi, DiAn SAIÉAnPi^a AvÁU UKÉPÉÁ, i ¥ÁrAiAÉAB
 °ÁQ PÁr Á AUAvzÉ wÉP®^a Aj PÉÁ½UMÁ D° ÁgA (aPi
^a ÁzAⁱ) «ÁqA AUAvzÉ SÆAUi °AvzP è °ÉiÉÁ PÁVAF °ÁPÁ.
 ÉAnPÉÁ½UMÁP è MmÁÜj^a Aj S° Á«ÉÁ ¥PÉ ÁAt ±Á.8 j AzA 10
 ರಷ್ಟು ಇರುತ್ತದೆ.

* PÁ^a PÉqA«PÁiA 02^a ÁgUMÁ ÉAvbzA 1 ZbzgA CrUÉ 1
^a Aj AiAvzÉ zÉqA±qiÉP è^a Aj UMEAB ©qA AUAvzÉ^a ÁÁÁ zA
 GzÁ±PÉ ÉAn PÉÁ½ S¼PÁiA[°] ÉÉ ±qiUMÁ JvzA^a ÁzA 10 j AzA 12 Cr
^a AvÁU CAaÉP è 7 j AzA 8 Cr EgA ÁPÁ. ^a ÁÉÁiA GzÁzA
 JgÁqÉ PÁqÁiA UÉÁqÉ 1.5 Cr^a AvÁEzÁV, CzÁgA^a ÁÁ⁻É
 eÁ®j C¼PÁr Á AUAvzÉ ±ÁzP ÁzA UÁ½^a AvÁU °¼PÁ
 °j zÁqPÁ EzÁ CvÁUMÁ 1^a Ami CxPÁ g.1 vUÁrÉÁ
 bÁ^a ÁtÁiA^a ÁÁ⁻É °Á¹ UÁiA[°] è °Á®Áé Uj °ÉÇ 1 zbzÉ SÁiAÁ
 PÁ^a ÁiA AUAvzÉ

5. ¥ÉqA^a ÁÜ: 180 ÇEUMÁ
6. ^a ÁqPÁ^a ÉEmØ E¼Á^a j: 150
7. ^a ÉmÁiA vKEPÁ 49 UÁÁ
8. ^a ÉmÁiA ¥P^a MVE 55%
9. ^a Aj ^a ÁqA^a PÁr ÁVÉ ±Á.52

4. S. ÁÖ :

- 1) F v½AiA^a S° ÁÁÉÁ UAvzP gAvzÉ
- 2) °UÁgP ÁzA^a ÉPÁ ÁMÁzÁVzÁY °ÉzÁN ZÁgÁPÁVgAvzÉ
- 3) ^a ÉmÁiA E¼Á^a j PÁ^a Á.
- 4) zÁ[°] zA S tUvÁAS^a é«zÁÉ-ÁAzÁ PKErgAvzÉ

5. ÉPÉji ÉPi :

1. «Á¼P ÁzA GzP ÁzA PÁwUÉ °ÁUP ÉAB °ÉAÇzÉ
2. PÁwUÉ °ÁUzÁ P¼UÉ ¥ÁPUMÁ EgA^a ÁÇ®é
3. F v½AiA^a ÁÉ® PÁgMÁ gÁdÁ
4. F v½AiA zÁ[°] MKEPÁ 20^a ÁgÁzÁ ÉAvbzA 1.25 PÉf
5. ¥ÉqA^a ÁÜ: 201 ÇEUMÁ.
6. ^a ÁqPÁ^a ÉEmØ E¼Á^a j: 99
7. ^a ÉmÁiA vKEPÁ 52 UÁÁ
8. ^a ÉmÁiA ¥P^a MVE: ±Á. 66
9. ^a Aj ^a ÁqA^a PÁr ÁVÉ ±Á. 71

**»vPÁ ¥zÁvÁiA[°] é ÁPÁ C®PÁr¹ zÁvÁUMÁ:
 SgÁ[°] C®PÁr¹ zÁvÁUMÁ B**

1. «®ÁPi

- 1 F v½ C¹Á⁻i PÁqⁱ v½AiA ±ÁzÁ PÉÁ½v½AiAvzÉ
- 2 ¥ÉqA^a ÁÜ: 176 ÇEUMÁ
- 3 ^a ÁqPÁ^a ÉEmØ E¼Á^a j: 198

- 4 ^aEmAiA vKEPA 52 UAA
- 5 ^ugA^j vKEPA UAQA: 1847 UAA
oEtAu 1350 UAA



2) ^aA^aMA :

- F v1/2 PqPi EAXi PAxi v1/2AiAAVZE oAUKE "PA-^aAA1"
- JAS oEJ aAZA ^ugA v1/2AiAAVZE
- ^ugA^a 170 CEUA
- ^aA^oPA ^aEmO E^{1/2}A^aJ : 210
- ^aEmAiA vKEPA 53 UAA
- ^ugA^j vKEPA UAQA: 1460 UAA
oEtAu 1120 UAA



ಕೊಠಡಿಯಲ್ಲಿನ ಉಷ್ಣಾಂಶ ಮತ್ತು ತೇವಾಂಶ ಸರಿಯಾದ
^ugA^a v1/2AiAAVZE oAUKE "PA-^aAA1"

^aEmO^{1/2}AZ^aA^aJ ^aAA
 qA^a AiAAVZE oE^{1/2}A^aJ CA^{1/2}UAZ^aJ

- 1) U^{1/2} Mv^{1/2}CAZ^aA^aJ ^aAAqA^a AiAAVZE
- 2) ^ugA^{1/2}-AAZ^aA^aJ ^aAAqA^a AiAAVZE

* U^{1/2} Mv^{1/2}CAZ^aA^aJ ^aAAqA^a AiAAVZE :
 U^{1/2} Mv^{1/2}CAZ^aA^aJ ^aAAqA^a AiAAVZE M^{1/2}UqE ^ugA^{1/2} CA^{1/2}UAZ^aJ
 C^{1/2}UAZ^aJ AzAAiAAVZE M^{1/2}UqE U^{1/2} ^ugA^{1/2} CA^{1/2}UAZ^aJ



* F AiAAVZE oE^{1/2}A^aJ ^ugA^{1/2} AS^{1/2}AiA^a ^aAAqA^a
^ugA^{1/2} ^ugA^{1/2} G^{1/2}UAZ^aJ v1/2AiAAVZE EzA zE^{1/2}q^{1/2}
^ugA^{1/2} zE^{1/2}q^{1/2} oE^{1/2}A^aJ DVZE.

* KPPA^{1/2} oE^{1/2}A^aJ ^ugA^{1/2} AS^{1/2}AiA^a ^aAAqA^a AiAAVZE :
^ugA^{1/2} ^ugA^{1/2} AS^{1/2}AiA^a ^aAAqA^a AiAAVZE : ^ugA^{1/2} ^ugA^{1/2} AS^{1/2}AiA^a
 aP^{1/2}AVZ^aJ CA^{1/2}UAZ^aJ M^{1/2}UqE U^{1/2} ^ugA^{1/2} CA^{1/2}UAZ^aJ
 C^{1/2}UAZ^aJ ^ugA^{1/2} CA^{1/2}UAZ^aJ oE^{1/2}A^aJ oE^{1/2}A^aJ v1/2AiAAVZE
 U^{1/2} AiAAVZE P^{1/2}A^aJ oE^{1/2}A^aJ M^{1/2}UqE ^ugA^{1/2} v1/2AiAAVZE
 v1/2AiAAVZE AiAAVZE P^{1/2}AiAAVZE oE^{1/2}A^aJ ^ugA^{1/2} AS^{1/2}AiA^a ^aAAqA^a
^aAAqA^a wAiAAVZE oE^{1/2}A^aJ oE^{1/2}A^aJ oE^{1/2}A^aJ ^ugA^{1/2} AS^{1/2}AiA^a ^aAAqA^a
^aAAqA^a v1/2AiAAVZE

PÄPÄI aEmÜ¼AZÄ aÄj aÄqÄ«PÜÉ aÄj UÄÄ MÜE LÉ

°ÉÄN ASÄiÄ PÉÄ½UMÄEÄB APÄtPÉ aÄqÄ aP gÄ aÄVÄÜ
 PÉÄ½ aÄj UMÄEÄB GvÄÜ aÄÄr aÄÄGÄI aÄÄqÄ aÄ GCPÄZÄgÄgÄ
 DgÄÄUÄP ÄVÄ ±ÜÄiÄÄVÄP ÄZÄ aÄj UMÄEÄB ¥ÄÄiÄ®Ä F CA±UMÄEÄB
 UÄP ÄÄ ÄPÄVZÉ

aEmÜ¼EÄB DÄiÄI aÄqÄ aÄZÄ:


- * ದಷ್ಟ ಪುಷ್ಟವಾಗಿ ಬೆಳೆದು ಆರೋಗ್ಯಕರವಾದ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ
 UÄt®PÄt UMÄEÄB °ÉÄCPZÄ VÄÄiÄ PÉÄ½UMÄAZÄ aÄj aÄÄr ®Ä
 aEmÜ¼EÄB DÄiÄI aÄÄr PÉÄ½Ä ÄPÄ.
- * UÄqÄ aÄVÄÜ °ÉÄÜPÉÄ½UMÄÄ ÄÄÄ®ÉP ÄZÄ °ÉÄÜPÉÄ½UMÄAZÄ
 1UÄ aÄ ¥®Ä MÄZÄ aEmÜ¼EÄB DÄiÄI aÄÄqÄ ÄPÄ.
- * Cw °ÉÄN CxPÄ CwPÄ aÄ UÄVÄZÄ aEmÜ¼EÄB DÄiÄI
 aÄÄqÄ ÄgÄZÄ.
- * Cw ÄtUÄVÄZÄ aEmÜ¼AZÄ S®»ÄÉP ÄZÄ aEmÜSgÄS °ÄZÄ.
- * MqÄZÄ SgÄPÄ ©I ÜCw VÄÄ ÄZÄ PÄZÄZÄ aÄÉI UMÄEÄB DÄiÄI
 aÄÄqÄ ÄgÄZÄ.
- * «PÄgÄ gÄÉ¥ZÄ aEmÜ¼EÄB DÄiÄI aÄÄqÄ ÄgÄZÄ.
- * aEmÜ¼EÄB ÄÄj ÄAZÄ VÉÄZÄ aÄj aÄÄqÄ ÄqÄ ÄgÄZÄ.

aEmÜ¼EÄB aÄj aÄqÄ aÄÄiÄÄVÄ

PÄPÄI aEmÜ¼EÄB aÄj aÄÄqÄ aÄÄiÄÄVÄPÉ EAPÄ ÄI gi
 JÄZÄ PÄÄiÄÄVÄÜÉ F ÄiÄÄVÄEÄB aÄVÄ aÄÄtZÄP é °ÄÉÄ
 SzÄ ÄÄÄiÄÄVÄVÉPÄ ÄZÄÉ½ÜÉ CÄPÄ r 1gÄ ÄPÄ, JgÄÄ
 ¥ÄÄVÄ ««ZÄ aÄÄZÄ ÄiÄ aÄj aÄÄqÄ aÄÄiÄÄVÄUMÄ
 aÄÄgÄPÄÄiÄ®Ä ®ÄÄZÉ ÄgÄVÄPÄV PÉÄ½ aÄj UMÄEÄB
 ¥ÄÄiÄÄPÄgÄ ¥ÄÄPÄ ÄZÄ Ägi aÄVÄÜ °ÄZÄgi É®ÄUMÄEÄB
 °ÉÄCPÄÄZÄ GvÄÄ.

3) »VÄÄj :

1. F VÄÄ ÉPÄgi ÉPÄ PÄÄgi VÄÄiÄÄVZÉ
2. ¥ÉÄÄÄÄÜ 178 ÇEÜMÄ.
3. aÄÄÄPÄ aEmÜ E¼ÄÄj : 200.
4. aEmÜÄiÄ VÄEPÄ 60 UÄÄ.
5. ÄgÄÄj VÄEPÄ UÄqÄ: 1756 UÄÄ.
 °ÉÄÜ 1320 UÄÄ.



4) GÄPÄj :

1. F VÄÄiÄEÄB ÜÄÄiÄ VÄÄiÄÉÄCPÜÉ APÄÄt UÉ½¹ÄVZÉ
2. F VÄÄ ÉÉÄqÄÄZÄÄiÄ °ÄÄZÄVÉPÄtÄVZÉ
3. F VÄÄ °ÉÄN gÄÄUÄ ÄgÄÄZÄPÄ ±ÜÜ °ÉÄCPÄVZÉ
4. GvÄÄ aÄÄÄZÄ E¼ÄÄj °ÉÄCPÄVZÉ
5. »VÄÄ ¥ÄÄVÄiÄ®Ä ÄPÄÄÄÄPÄ ÄZÄ VÄÄiÄÄVZÉ
6. ¥ÉÄÄÄÄÜ 170-180 ÇEÜMÄ.
7. aÄÄÄPÄ aEmÜ E¼ÄÄj : 220.
8. aEmÜÄiÄ VÄEPÄ 52-55 UÄÄ.

2) Vj gAd :

1. F vA^a AA±P EAB vA; a; P^a a AEAIA E^oUA AÖ^o KE«AVAVAMA ZA Cr a AA^o gA^o APA.
2. gEAUA a gEAZPA ±DU^o EAgAVZE
3. J⁻ Ae^o P AUAt PKEI^o KEAÇPKEVA^a AUAt^o KEAÇZE
4. ಗಾತ್ರದಲ್ಲಿ, ಮೈಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಆಕರ್ಷಕ ನಿಲುವು ಹೊಂದಿದೆ.
5. a^o EmD a AvAU^a AA^a GvAZIEIA^o e EAn PKEA½UM²VAV^a 3 ¥A AÖCÇP^a AVZE
6. a^o AqOP^a a^o EmD E¼A^a j : 140-150.
7. S^o vA PKEA½AIA vKEPA^o Ad- 5-6 PE f^o Et AU PKEA½: 3.5 PE f.
8. JAI A^a AgUM^a e vKEPA 1.61 PE f.
9. a^o EmD EqP^a DgA^o P AUa^a a^a IA^a Ai 175 ÇEUM^a.
10. a^o EmD vKEPA 60 UAA.

PKEA½ APAtRA ¥AvUM^a B

- 1) zA^a M^o ¥AvIA^o e^o APA^a IZA.
- 2) ¥AdgZP e^o APA^a IZA.

1) zA^a M^o ¥AvIA^o e^o APA^a IZA B

F ¥AvIA^o e PKEA½UM^a EAB a AEAIA M¼UqE^o APA AUAVZE F ¥AvIA^o e PKEA½ APAAUA U½AIA^a P^a U ZIEAVgA^o APA. a AEAIA 28 Cr CUP^o gA^o APA. E^oZA a AA⁻ E^o A^a IAgA 3-4 ಅಂಗುಲದಷ್ಟು ದಪ್ಪ ಲಿಟ್ಟಿನ ವಸ್ತುವನ್ನು ಹಾಕಿರಲಾಗಿರುತ್ತದೆ (ಲಿಟ್ಟಿನ a^a AU^o MZA^o KEI AÖ^o a AgZAr, ¥ArAIAV PMJ^o 1ZA gAV^o A^o Ae^o PPEA 1¥A a AA vAZP^a).^o I q^o PKEA½UM²UE a AvEAIA^o A^a a^a a^a AU^o AVZAV PKEA½ a AEU^a E^o a EAB Mt^o 1AvIA^o e EqAVZE a AvAU PKEA½UM^a » PIA^o e A vA^a AA±P EAB » Aj PKEVA^a ±AR vAIA^o D^a A^o PA^a AU^o AV^a Av^o AvZE C^o ZE PKEA½UM²UE P^o a

- * vA^a AA±P EAB vA; a; P^a a AEAIA E^oUA AÖ^o KE«AVAVAMA ZA Cr a AA^o gA^o APA.
- * E^o,^o A^a a AA vAZA ¥A^o UM^a ¥E^o A² ZAVe E^oUA EAB^o KEgZAa^o gA^o APA.
- * UA½^o P^a a AEAIAUE^o gAUP AV SgP^a PAAIA^a AU^a AVe S⁻ AIAEAB G¥AIAEAV^o PA^o q^a a AAÖt^o a AAq^o APA.
- * PKEA½^o a Aj^o a AvAU^a AA^a a AV^o P^a a AvAU^o a AgAtPUE eAUkga^o APA.

¥Av PKEA½UE APAAUA AEPZA «1Utö:

a ^a IA ^a (a ^a AgUM ^a)	E ^o ZAeAUA (Cr.)	a ^a AA ^a t PEeAUA (A. «AA)	a ^a AgAt PEeAUA (A. «AA)
0-4	0.5	2.5	1.5
4-8	1.1	5.0	2.0
8-12	2.0	6.5	2.5

- * ±ARZA SAnAIEAB C¼P^a P^a «zAvi^o A¥P^o K¥Dr^o APA.
- * GvP^a P^a t AUUE^o AUKE GvAZIEUE ¥Av a^o EmD PKEA½UME JgqA ZbzA Cr^o AUKE a^a AA^o ZA PKEA½UE MAZA ZbzA Cr ¥Av±A^o APAAUVZE
- * PKEA½UM^a EAB ¥AdgZA ¥AvIA^o e^o APA^a IZA Zbz^o a AEAIA CUP^o 26-28 Cr M¼MgA^o APA EzPE ¥PZP^o e UKEAQUM^a C^a LPMA^o E^o
- * a^a IAgA^o j ZA SgA^a AZAVe EzP^o e MAZA Cr JvZbzA UKEAQE PA^o APA.

